

मध्यप्रदेश विधान सभा



जून-जुलाई, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014 (आषाढ 30, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री पवेसिंह पारगी, मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 तक) पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र पाण्डेय, यशपाल सिंह सिसोदिया, बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, रतलाम, उज्जैन एवं मन्दसौर जिले में बन्द पड़ी शुगर मिलों को पुनः चालू किये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य, बुरहानपुर को मेगा डेस्टिनेशन योजना में शामिल न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के -

- (क) ग्राम सहलावन से हरदी तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
- (ख) ग्राम लुहरवारा में उमड़ार नदी पर पुल तथा मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
- (ग) ग्राम खिरहनी में पुल निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम कटरिया एवं कोटल्दो के मध्य महानदी में स्टापडेम/काजवे निर्माण किये जाने,
- (ड.) ग्राम मोहदा एवं कौआझाल के मध्य महानदी पर स्टाप डेम/काजवे निर्माण किये जाने,
- (च) ग्राम खम्हरिया-आमाझाल मार्ग मय पुलिया के निर्माण किये जाने,
- (छ) ग्राम खैरानी के साडावाह नाले पर पुल निर्माण किये जाने,
- (ज) ग्राम देवरीमारवाड़ी एवं गूडा के मध्य स्टापडेम/काजवे निर्माण किये जाने,

(2) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के-

- (क) सूरजपुरा बांध से खारी, नयागांव बम्हौरी तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) ग्राम केसली में आई.टी.आई. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के-

- (क) ग्राम मरकाहांडी में हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम खदवेली से रामाकोना तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम डोंडाखापा से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम उमरियासोमजी से आमटा के मध्य पुलिया निर्माण किये जाने,
- (ड.) ग्राम घोड़ारखैरी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (च) ग्राम थोटा माल के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

- (4) श्री के.के.श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के-
- (क) ग्राम बम्हौरी (मड़िया) से जुड़ावन तक सड़क का निर्माण किये जाने,
 - (ख) ग्राम पतारी से बरियाखेरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
 - (ग) ग्राम कुमरऊ के मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (घ) ग्राम ककरवाहा में हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (ङ.) ग्राम हनुमान सागर में शा.मा.शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (5) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य, ग्वालियर जिले के-
- (क) ग्राम सिमरिया से ऊधो तक रोड बनाये जाने,
 - (ख) ग्राम किठौदा से रामपुरा तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
- (6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के-
- (क) ग्राम डावरसा से चकआसन तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
 - (ख) ग्राम जलालपुरा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
- (7) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम कातोरा के प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्रीवाल बनाये जाने,
- (8) श्री महेन्द्र हार्डिया, सदस्य, इन्दौर शहर में रिंग रोड पर फ्लाई ओव्हर/ब्रिज बनाये जाने,
- (9) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के नारायणपुरा रोड पर विद्युत के पोल लगाये जाने; तथा
- (10) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम हिरनपुर से बगदरी तक पक्की सड़क का निर्माण किये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

निर्धारित
समय

8. वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

1 घन्टा
30 मि.

- | | | |
|-----|----------------|--|
| (1) | मांग संख्या-15 | अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | मांग संख्या-33 | आदिम जाति कल्याण |
| | मांग संख्या-41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना |
| | मांग संख्या-42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल |
| | मांग संख्या-49 | अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण |
| | मांग संख्या-52 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | मांग संख्या-53 | अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता |
| | मांग संख्या-64 | अनुसूचित जाति उपयोजना |
| | मांग संख्या-68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता. |

30 मि.

- | | | |
|-----|----------------|----------------------|
| (2) | मांग संख्या-55 | महिला एवं बाल विकास. |
|-----|----------------|----------------------|

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा